

JAY USHIN LIMITED

(A Joint Venture With USHIN LTD. JAPAN)

G.P. 14, HSIIDC INDL. ESTATE, SECTOR-18, GURGAON - 122 001 HARYANA (INDIA) Phone: 0124-4623400 Fax: 0124-4623403 E-mail: info@jushinindia.com Website: www.jpmgroup.co.in CIN: L52110DL1986PLC025118

May 27, 2019

To

BSE Limited
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai -400001.

Scrip Code: 513252

Subject: Submission of advertisement for publication of Financial Results

Dear Sir,

In compliance with SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 we are enclosing herewith a copy of advertisement published in the newspaper i.e Statesman (English Newspaper) and Haribhumi (Hindi Newspaper) on May 27, 2019 towards Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial results for the quarter and year ended March 31, 2019.

Thanking You,

Yours Faithfully Jay Ushin Limited

Amit Kithania

Sr. Manager Finance &

Kithahah

Company Secretary

M.No. A42447





खबर संक्षेप

आज मतदाताओं का आभार जताने काशी जाएंगे मोदी

वाराणसी। पीएम नरेंद्र मोदी उन पर फिर से विश्वास जताने पर लोगों का आभार व्यक्त करने और प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की यात्रा करेंगे। वाराणसी पहुंचने के बाद मोदी सड़क मार्ग से पुलिस लाइन से बांसफाटक तक जायेंगे। उनका काफिला शहर के कई हिस्सों से गुजरेगा। वह सोमवार सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे, बाद में भाजपाइयों की सभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को मोदी ने टवीट किया कि मां से आशीर्वाद लेने के लिए कल शाम गजरात जाऊंगा। मुझपर पुनः विश्वास जताने के लिए परसों मैं काशी की महान भूमि के लोगों का आभार जताने वहां जाऊंगा। डीएम ने बताया कि पीएम की यात्रा के तहत सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं।

सोनिया ने रायबरेली की जनता का आभार जताया

रायबरेली। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद रविवार को जनता का आभार व्यक्त किया। सोनिया ने रायबरेली की जनता को संबोधित पत्र में लिखा कि लोकसभा चुनाव में हर बार की तरह मुझमें अपना विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस के एक- एक कार्यकर्ता के अलावा सपा, बसपा, स्वाभिमान दल के साथियों ने जिस तरह मेरी जीत के लिए परिश्रम किया, उसके लिए मैं आभारी हूं। 'मेरा जीवन आप सबके सामने खुली किताब की तरह रहा है। आप

नदी की धारा को अविरल बनाए रखने के लिए पुलिस कर रही पहरेदारी

नदी के किनारे पिस्तौल से लैस पुलिसकर्मी की नजरें दूरबीन से भगोड़े अपराधी को नहीं बल्कि नदी का प्रवाह अवरुद्ध करने वालों को तलाश रही हैं। इन दिनों पुलिस की अनुठी बुंदेलखंड की जीवनदायनी क्याजल समस्या केन नदी के लिए हो रही है। पहरेदारी, सूखें से जूझ रहें बुंदेलखंड में सुखे से सर्वाधिक प्रभावित बांदा, आसपास के इलाकों में पानी के एकमात्र स्रोत के रूप में बची केन नदी को बाल खनन माफिया से बचाने हेतु यूपी पुलिस के कंधों पर सख्त पहरेदारी का भार है। भीषण गर्मी में सुखकर मामूली नहर बन चुकी केन नदी में पानी की धारा को अविरल बनाये रखने हेतु स्थानीय प्रशासन ने पुलिस

केन नदी की धारा रोककर अवैध बालू का खनन करते हैं माफिया

दुरबीन, हथियारों से लैस हैं सिपाही

बांदा के एसएसपी एलबी के पाल ने बताया कि समस्या से निपटने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी। सिर्फ खनन माफिया ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में नदी के किनारे सब्जी उत्पादक किसान सिंचाई के लिये नदी का प्रवाह रोक देते हैं। इससे समस्या और अधिक गहरा गई है। इससे निपटने के लिये दूरबीन, हथियारों से लैस पुलिसकर्मी, इन दिनों केन नदी के तट पर पहरेदारों करते देखे जा सकते हैं।

गर्मी में सूखकर मामूली नहर बन चुकी है केन नदी

तैनात की है। पुलिस अधिकारियों की दलील है कि यह इलाका, इन दिनों पेयजल की उपलब्धता के मामले में

<u>दो टीम हैं तैनात</u> सब्जी के लिए किसान पाल ने कहा कि नदी में भी रोक देते हैं जलधारा

पानी का बहाव रोके जा नदी में पानी का प्रवाह सुनिश्चित सकने वाले इलाकों को चिन्हित कर वहां ने बताया कि नदी के बहाव क्षेत्र में निगरानी तेज कर दी गई है। इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी किसानों को गठित ढो पलिस निगरानी दल, पूरे बांदा जनपद में केन के तट पर प्रतिरोध वाले इलाकों में सख्त पहरा दे रहे हैं।

केन नदी पर आश्रित हो जाता है। गर्मी के कारण नदी में भी इस समय मामुली जलप्रवाह रह जाता है। ऐसे में नदी की धारा को रोककर बाल का खनन करने लगते

करने में लगे दरोगा दयाँशंकर पाण्डेय दिन रात प्रलिस की गश्त हो रही है। समझा बुझा कर पानी रोकने से मना किया जाता हैं. वहीं जलधारा रोककर बाल का अवैध खनन करने वालों पर सख्ती से पेश आना पडता है।

अवैध खनन कारोबारी दुरदराज के दुर्गम इलाकों में

समस्या का स्थायी हल करे

बुदेलखंड की प्रमुख निदयों मंदाकिनी. बेतवा व केन के संरक्षण से जुड़े पर्यावरण विशेषज्ञ गुंजन मिश्रा समस्या का तात्कालिक उपाय मानते हैं। मिश्रा ने बताया कि नदियों की रखवाली में सुरक्षाकर्मी तैनात करने का प्रयोग उत्तराखंड, दिल्ली में किया जा चूका है। गंगा, युमना में सीवर व पुजा सामग्री सहित अन्य अपशिष्ट प्रवाहित करने से रौकने संबंधी न्यायिक आदेशों के पालन में उत्तराखंड पुलिस ने गंगा प्रहरी व इसकी तर्ज पर दिल्ली में यमुना प्रहरी तैनात करने की पहल की थी। यह कवायँद, समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। प्रशासन को नदी में पानी कम होने पर शहरों की प्यास बुझाने की खातिर खनन के खिलाफ महज गर्मियों में सख्ती बरतने के बजाय साल भर यह रवैया अपनाने की जरूरत है।

हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में पानी की आपर्ति के लिये नदी में बने 'इन-टेक वेल' तक पानी नहीं पहुंच पाता है।

गोण्डा जिले में पिछले 24 घंटे में दो हत्याएं

गोण्डा (उप्र)। जिले के दो थाना क्षेत्रों में बीते 24 घंटों के दौरान दो लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक आर पी सिंह ने रविवार को बताया कि पहली घटना जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के नेवला गांव में हुई, जहां रविवार दोपहर भूमि विवाद में राम समोखन यादव (62) की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की दो बेटियों, तीन बेटों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। शव का पंचनामा करा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष बी एन सिंह ने बताया कि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

एसपी ने बताया कि हत्या की दूसरी घटना कौडिया थाना क्षेत्र के जमथरा गांव में हुई, जहां वीर सिंह (45) नाम के व्यक्ति की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के पिता बंशराज सिंह की तहरीर पर तीन आरोपियों

पर मामला दर्ज किया गया है। मेरा परिवार हैं।

गवाह की गोली मार कर हत्या मजफ्फरनगर। युपी के शमली जिले में भाई की हत्या के गवाह की बाइक सवार दो लोगों ने गोली मार कर कथित रूप से हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सियानंद (45)शनिवार की शाम शामली शहर की चीनी मिल से लौट रहा था। रास्ते में मेरठ-करनाल राजमार्ग पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। पुलिस ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश होने का संदेह जताया है। सियानंद के भाई रविंदर की कुछ माह पहले गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। सियानंद इस मामले में गवाह था।

राशिफ 27 मई 2019



डॉ. प्रेम कुमार शर्मा तेषी, हस्तरेखा, न्यूमेरोलॉजिस्ट और वास्तु सलाहकार

Email: psharma@premastrologer.com Ph. 01147033152/40532026 Saket New Delhi-17

शभ अंकः ३. रंग : सफेद्र।



वृषः काम को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। परिवार में किसी के प्रातराध करन स मन अशात रहगा। मनाकामना पूरा हान का याग ह। पैतक संपत्ति हाथ से निकल सकती है। शुभ अंकः 4, रंगः स्काई ब्लू।



मिथुनः कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा। परिवार के साथ समय बिताएं। नई जगह की यात्रा पर निकल सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले शुभ अंक : ९, रंगः सैंडी ब्राउन। में किसी जानकार की सलाह लें।



कर्कः कार्यक्षेत्र में कढम उठाने से पहले विचार कर लें। परिवार की तरफ से पूर्ण सहयोग मिलेगा। सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानी जल्ब हल होगी। शुभ अंकः ६, रंगः नेवी ब्लु।




सिंहः कार्यक्षेत्र में अपने काम की वजह से सर्खियों में रहेंगे। समाज में पहचान बनेगी। छुट्टियों पर जाने का प्लान पूरा होगा। प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। शूम अंक: ७, रंग: लाइट रेड।




कन्याः कार्यक्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिलेगा। शिक्षा के मामले में घर के बड़ों से सलाह लें। सफर पर जाने से पहले वाहन को चेक कराएं। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं। **शुभ अंकः** 17, **रंगः** ऑरेंज।



तुलाः आफिस में थका देने वाला दिन बीतेगा। परिवार के लिए उठाया गया कदम फलदायी होगा। रूटीन से हट कर छुट्टी पर जाना सही रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ होगा। शुभ अंकः २२, रंग : क्रीम।



ठीक नहीं. धैर्य से काम लें। काम की वजह से यात्रा करना थका सकता है। प्रॉपर्टी मामलों को दूसरे दिन निपटाएं। शुभ अंक: 18, रंग: कॉफ्री।



मकरः कार्यक्षेत्र में अपना काम पूरा रखें। घरवालों से सलाह लेने में देर न करें। सहयात्री की वजह से रोमांचक यात्रा बोरिंग हो सकती है। अपना घर खरीदने का योग बन रहा है। शूभ अंक : 15, रंग: सफेद।

शुभ अंक : १, रंगः मरून।



कुंभ : जो भी काम करें, उसमें अच्छा प्रदर्शन करें। घर में खशी तभी ु आएंगी जब सोच बदलेंगी। ऑफिसियल टूर पर जाना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर सावधान रहें। श्रुम अंक : ८, रंग: लाइट ग्रे।



मीनः कार्यक्षेत्र में सब सामान्य रहेगा। परिवार से जुड़ी परेशानी को लेकर तनाव में रहेंगे। रोमांचक यात्रा स्थिगत हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। श्रुभ अंक : २, रंग : पीच।

:टिप्स:

1. अपने शयनकक्ष में यिन और यांग का प्रतीक लगाएं। यह आपके कमरे में एकता और संतलन बनाकर रखेगा।

2. विजयी घोड़ा, इस घोड़े को अपने घर या ऑफिस में लगाने पर आपको अपने काम में सफलता मिलती है।

2. लाल रंग के जार में पौधे लगाएं। यह आपके रोमांटिक जीवन को सजीव बनाए रखता है।

टिप्स: मनीषा कौशिक, ज्योतिषि, टैरो कार्ड Contact: +91-11-26449898, 26489899

स्मृति ने सुरेन्द्र के परिवार को ढाढस बंधाया

'अमेटी को आतंकित करने की नीयत से हत्या की गई'



एजेंसी 🕪 अमेटी (उप्र)

अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी के करीबी माने जाने वाले बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक दया राम ने रविवार को बताया कि बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान स्थानीय भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह को शनिवार रात करीब 11.30 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना की जांच जारी है।

स्मृति ईरानी रविवार की दोपहर बाद बरौलिया गांव पहुंचीं, सिंह के परिवार वालों से मिलीं, उन्हें ढांढस बंधाया। सुरेन्द्र सिंह स्मृति ईरानी के बहुत करीबी माने जाते थे। सिंह के घर पहुंची स्मृति ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद कहा कि मैं इस घटना से बहुत दुखी हं। सरकार एवं भाजपा संगठन दुःख की इस घड़ों में परिवार के साथ है। दीषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।

अमेटी को झुकाने की है साजिश

स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी को आतंकित करने की नीयत से सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई है। अमेठी टूटे, अमेठी झुके, इस घटना के पीछे यही राज छिपा है। भाजपा का 11 करोड़ का परिवार सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ खडा है। कानून की मर्यादा में रहकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। हम सब को संयम बरतना चाहिए। धैर्य से काम लेना होगा।

सियासी दुश्मनी की कर रहे हैं जांचः डीजीपी

लखनऊ में यूपी के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने कहा कि हमें पुरानी रंजिश का पता चला है। हम ये भी पता कर रहे हैं कि कहीं कोई राजनीतिक दुश्मनी तो नहीं थी। यूपी पुलिस की टीमें सघन जांच केर रही हैं। अब तक हमने सात लोगों

को हिरासत में लिया है। हमें इलेक्ट्रानिक सर्विलांस से कुछ अहम तथ्य भी मिले हैं। उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में हम हत्या की वजह का पता कर लेंगे। सभी संभावित पहलुओं को देखा जा रहा है।

े हर पहलु से हो रही जांच

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि घटना के राजनैतिक हत्या होने से इंकार नहीं किया जा सकता। सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। सिंह पूर्व प्रधान रहे हैं इसलिए परानी रंजिश का मामला भी हो सकता है।

बेटे को कांग्रेसियों पर शक


सिंह के बेटे अभय सिंह ने बताया कि कुछ कांग्रेस समर्थक असामाजिक तत्वों को अमेठी में भाजपा की जीत रास नहीं आई। सिंह की हत्या पर भाजपा के अमेठी लोकसभा क्षेत्र के संयोजक राजेश अग्रहरि ने कहा कि कांग्रेस की हताशा, घटना के हालात को देखते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। चुनाव के बाद से कांग्रेस में हताशा है इसलिए घटना की गहन जांच हो. ढोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।


) पाताल तक चलेगी खोज यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद



मौर्य ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता की मौत अत्यंत दुखद है। वह परिश्रमी कार्यकर्ता थे। मले ही हत्यारे पाताल में क्यों ना छिपे हों, उन्हें ढूंढ









पहुंचे। उन्होंने कहा कि हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रजा ने बताया कि सिंह की हत्या उस समय हुई, जब वह सो रहे थे। यह अत्यंत जघन्य घटना है। रंजा अमेटी के प्रभारी मंत्री भी हैं।

मामले में पांच लोगों पर 🗕 नामजद पाथमिकी दर्ज

एसएसपी दयाराम ने बताया कि वसीम, नसीम, गोलू, धर्मनाथ व बीडीसी सदस्य (ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी-क्षेत्र विकास समिति) रामचंद्र पर सुरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में धारा 302 (हत्याँ) व 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रामचंद्र बीडीसों सदस्य एवं कांग्रेस का नेता है। प्रथमदृष्टया मामला लोस चुनाव, पूर्व में पंचायत चुनाव के दौरान हुई रंजिश का होंने की आशंका है। नसीम, वसीम व गोलू पर पूर्व ग्राम प्रधान को गोली मारने का आरोप है।

प्रियंका, स्मृति ईरानी में हुई थी जताँ वितरण वार

लोकसभा चुनाव के ढ़ौरान जता वितरण प्रकरण में सुरेंद्र सिंह काफी चर्चा में रहे थे। उन्हें स्मृति ईरानी का करीबी माना जाता था। कांग्रेस महाराचिव प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर बरौलिया गांव के लोगों को जूते बांटने का आरोप लगाते हुए इसे अमेठी के लोगों का अपमान बताया था। बरौलिया गांव को पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोढ़ लिया था।

किसान का अपहरण करने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर

एजेंसी 🕪 सहारनपुर

यपी के सहारनपर जिले में पलिस ने अपहृत किसान को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया, जबिक उसके साथी फरार हो गए। घटना में दो पुलिसकर्मी भी जख्मी

हुए हैं। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार ने बताया कि गागलहेडी क्षेत्र के निवासी किसान देवेन्द्र को हथियारबंद बदमाशों ने रात में उसके खेत में बंधक बना लिया था। बदमाशों ने किसान के परिजनों को फोन कर उसकी सकुशल वापसी के लिए 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी व नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। कमार ने बताया कि पीड़ित के परिजनों ने इसकी सूचना 'डायल 100' को दी। इसके बाद थाना गागलहेडी सहित अन्य पुलिस बल ने बदमाशों की तलाश में पूरे इलाके की घेरांबदी की



चंगुल से मुक्त कराते वक्त दो सिपाही भी हुए घायल

तो खेत में छुपे बदमाशों ने पुलिस दल पर गोलीबारी कर दी। पलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी घायल हुए

हैं। मतक बदमाश के अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर अपहृत देवेन्द को रस्सी से बंधी हालत में छोड़कर फरार हो गये। पुलिस ने किसान को मुक्त करा लिया है और फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। मतक बदमाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

सार्वजनिक घोषणा [भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

		मेटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ ^{नर्माण प्राइवेट लिमिटेड)}
	संबंधित	विवरण
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	वेन्ता रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	05 जून, 2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2010PTC203693
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 406, चौथी मंजिल, एैलिगैंस टावर 8 जसोला डिस्ट्रिक सेंटर, नई दिल्ली—110025
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	20 मई 2019 (आर्डर की प्रति 24 मई 2019 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	16 नवंबर, 2019
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	देबाशीष नंदा पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017- 18/10316
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	एस—7, मनीष प्लाजा, नं. 2 आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110092 ईमेल : dnanda.cma@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल	एस—7, मनीष प्लाजा, नं. 2 आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110092 ईमेल : ip.ventarealtech@gmail.co
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	07 जून, 2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	होम बायर्स
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	 जी. सत्यनारायाण घनश्याम कौशिक सुधीर कुमार अग्रवाल

. (क) संबंधित प्रपन्न और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है : (ख) https://ibbi.gov.in/inps-register/registered-ips एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 20 मई 2019 को **वेन्ता रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्परेट ऋण शोघ अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (आदेश की प्रमाणित प्रति 2**4 मई 2019**, को प्राप्त

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतिष्टि-तंबर 12 के समझ, थया सुनीबद्ध किसी वर्ग समझित तियों के क्रिटर प्राप्त सीए में वर्ग के होम बायर प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविध्दि संख्या 13 के समझ सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेसी प्रोफेशनल्स में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। पंजीकरण सं IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल

Website: www.jpmgroup.co.in, Tel: 91(124)-4623400, Fax: +91(124)-4623403

Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter

							(**************************************	
SI. No.	Particulars	Standalone Quarter ended			Standalone Year ended		Consolidated Year ended	
		31.03.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)
1. 2.	Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	17,266.47	20,916.81	23,208.32	85,493.16	88,958.77	85,493.16	-
3.	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after	254.82	301.90	152.93	1,266.99	812.19	1,263.25	-
4.	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after	254.82	301.90	152.93	1,266.99	812.19	1,263.25	-
5.	Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period	214.29	228.66	294.18	1,154.24	1,067.84	1,150.50	-
J.	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after	157.85	237.45	317.73	1,118.36	1,091.39	1,114.62	-
^	tax)]	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	-
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value per Share Rs. 10/-Each)							
7.	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				7,092.21	6,113.65	7,088.47	-
8.	Earnings per equity share (EPS) (of Rs. 10/- each)	5.55	5.92	7.61	29.87	27.63	29.77	
	a) Basic	5.55	5.92	7.61	29.87	27.63	29.77	-

.The above unaudited results for the quarter ended March 31, 2019 and the audited results for the year ended March 31, 2019 were reviewed by the Audit

Jay Ushin Limited

(Rs. In Lakhs)

Place: Gurugram

JAY USHIN LIMITED

Registered Office: GI-48, G.T. Karnal Road, Delhi-110033, CIN: L52110DL1986PLC025118, E-mail: Info@jushinindia.com

and Year ended March 31, 2019

e from Operations Loss) for the period (before Tax, and/or Extraordinary items) Loss) for the period before tax (after and/or Extraordinary items) Loss) for the period after tax (after	31.03.2019 (Unaudited) 17,266.47 254.82	31.12.2018 (Unaudited) 20,916.81 301.90	31.03.2018 (Unaudited) 23,208.32	31.03.2019 (Audited) 85,493.16	31.03.2018 (Audited) 88,958.77	31.03.2019 (Audited) 85,493.16	31.03.2018 (Audited)
Loss) for the period (before Tax, and/or Extraordinary items) Loss) for the period before tax (after and/or Extraordinary items)	254.82		,	85,493.16	88,958.77	85,493.16	-
and/or Extraordinary items) Loss) for the period before tax (after and/or Extraordinary items)		301.90	450.00				
and/or Extraordinary items)		1	152.93	1,266.99	812.19	1,263.25	-
	254.82	301.90	152.93	1,266.99	812.19	1,263.25	-
and/or Extraordinary items) rehensive Income for the period	214.29	228.66	294.18	1,154.24	1,067.84	1,150.50	-
Profit / (Loss) for the period (after	157.85	237.45	317.73	1,118.36	1,091.39	1,114.62	-
,	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	386.45	-
e per Share Rs. 10/-Each) excluding revaluation reserves) as a Audited Balance Sheet of the ar				7,092.21	6,113.65	7,088.47	-
er equity share (EPS) - each)	5.55	5.92	7.61	29.87	27.63	29.77	-
			7.61 Not annualised	29.87 Annualised	27.63 Annualised	29.77 Annualised	
	Profit / (Loss) for the period (after er Comprehensive Income (after ity Share Capital pper Share Rs. 10/-Each) xculuding revaluation reserves) as Audited Balance Sheet of the ar requity share (EPS)	Profit / (Loss) for the period (after er Comprehensive Income (after ity Share Capital per Share Rs. 10/-Each) xcluding revaluation reserves) as a Audited Balance Sheet of the arrequity share (EPS) each) 5.55	Profit / (Loss) for the period (after er Comprehensive Income (after are Comprehensive Income (after are Capital sper Share Rs. 10/-Each)	Profit / (Loss) for the period (after er Comprehensive Income (after er Comprehensive Income (after are Comprehensive Income (after are Comprehensive Income (after are quity share (EPS) each) 157.85 237.45 317.73 386.45 386.4	Profit / (Loss) for the period (after er Comprehensive Income (after er Comprehensive Income (after as 386.45 as 3	Profit / (Loss) for the period (after er Comprehensive Income (after er Comprehensive Income (after sity Share Capital per Share Rs. 10/-Each) 157.85 237.45 317.73 1,118.36 1,091.39 sity Share Capital per Share Rs. 10/-Each) 386.45 38	Profit / (Loss) for the period (after er Comprehensive Income (after are Quity share Rs. 10/-Each) **Reducted Balance Sheet of the are requity share (EPS) (each)

Committee and approved by the Board of Directors in it's meeting held on May 25, 2019. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on

2. The Board of Directors at their meeting considered and recommended a dividend aggregating Rs. 115.94 Lakhs i.e. Rs.3.00 per share (nominal value Rs. 10.00 per share) (Previous Year Rs. 115.94 Lakhs i.e. Rs.3.00) for the financial year 2018-19.

. The above is an extract of the detailed format of the Quarter and Year ended March 31, 2019 Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and also on Company's website www.jpmgroup.co.in. For and on behalf of Board of Directors

(Ashwani Minda) **Managing Director** DIN: 00049966

Dated : May 25, 2019

नोदी, शाह को प्रचंड जीत का श्रेयः योगी

नया प्रदेश, भारत बनाने को सपा-बसपा से दूर हुई जनता

एजेंसी 🕪 लखनऊ

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मिला जनादेश नए भारत का, नया यूपी बनाने का जनादेश है। यह जनादेश उन राजनीतिक दलों को करारा जवाब है जिन्होंने समाज कल्याण के नाम पर गरीबों को ठगा. जाति की राजनीति की।

योगी ने कहा कि सपा बसपा का अवसरवादी गठबंधन जाति की राजनीति पर निर्भर था पर हमने जाति, सम्प्रदाय या धर्म से ऊपर उठकर नागरिकों के विकास की बात की। यही वजह है कि जनता ने भाजपा को वोट किया। योगी ने प्रचंड जनादेश का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को दिया। यपी में भाजपा को मिला व्यापक जनादेश नये भारत का, नया यूपी बनाने के लिए है। यह जनादेश जातिवाद, भाई-भतीजावाद व भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यह सपा के गुंडों पर विजय है जो हमारी माताओं, बहनों का उत्पीड़न करते थे, जो व्यापारियों व उद्योगपितयों से गुंडा टैक्स वसुलते थे। पहले युपी में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। अपराधियों, भ्रष्ट पुलिस

बिना भेदभाव लिए हैं एक्शन



गत दो साल में यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई. भले ही वे किसी जाति, धर्म या राजनीतिक पृष्टभूमि के हों।

मुटमेड़ों में मरे है 75 अपराधी योगी के सहायकों से मिले आंकड़ों के मुताबिक,

भाजपा के शासनकाल में ३५३९ मूठभेड हुईं, ८१३५ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस की आत्मरक्षा की कार्रवाई में 75 अपराधी मारे गए। सर्वाधिक वांछित २७६४ अपराधी गिरफ्तार किए गए और १३,८८६ ने आत्मसमर्पण किया। राज्य में पिछले दो साल में एक भी दंगा नहीं हुआ।

अधिकारियों, राजनेताओं की मिलीभगत से राज्य में अपराध धंधा बन गया था पर मौजदा सरकार ने अपराध के प्रति 'कर्तई बर्दाश्त नहीं' (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाई है।

or parallel negotiations.

Regarding the petitioners'

claim that government had

suppressed and concealed

material facts from the apex court, the Centre said these

allegations are devoid of merit.

for 36 Rafale procurement is

between the two sovereign

nations and the implemen-

tation of the project which is

on schedule is being closely

monitored by both the Gov-

ernments. The adequate safe-

guards are built into IGA for

ensuring smooth implemen-

tation of the project," it said.

Force personnel is underway

in France. Any attempt to

bring this procurement under

cloud may result into delay in

implementation of the project

and would affect the opera-

tional preparedness of Indian Air Force," the Centre said.

Bhushan had earlier alleged

in the apex court that the

Centre "wilfully and deliber-

ately" misled the court in the

Rafale fighter jet case and

this amounted to "wholesale

fraud".

Sinha, Shourie and

"The training of Indian Air

"It is submitted that the IGA



A vendor sells handmade baskets and baby cradles to commuters on a road in Amritsar on Sunday.

Teenager injured in firing along LoC: A teenager was injured on Sunday in small arms firing by the Pakistan Army along the Line of Control (LoC) in Rajouri district of Jammu and Kashmir, police said. The firing from across the LoC started in Nowshera sector around midnight, prompting retaliation by the Indian Army, a police official said.

Suspected Maoists kill Cong worker: A local Congress worker was brutally killed by suspected **Maoists in Chhattisgarh's** Bijapur district, police said on Sunday. Sahdev Samrat (30), a native of Thothapara area, was attacked with sharp-edged weapons on Saturday night when he went to attend a wedding in the nearby Kostapara area in Bhairamgarh town, a local police official said.

NGO seeks strict fire safety law after Surat tragedy: An NGO working in the field of fire safety and prevention has written to **Prime Minister Narendra** Modi, demanding a strong law be enacted to prevent fire tragedies. UHRF made the demand after a fire in **Gujarat's Surat district on** Friday that led to the death of 22 students, including 18 girls, attending coaching classes.

'No FIR or CBI probe into Rafale deal'

Centre says petitioners haven't disclosed new evidence in review plea, only based their case on unauthorisedly accessed documents

STATESMAN NEWS SERVICE **NEW DELHI 26 MAY**

he Centre has told the Supreme Court that there was no question of either registration of an FIR or investigation by CBI in the Rafale fighter jets deal as the apex court had already concluded that there was no reason for intervention by it on the "sensitive issue".

The Centre, which sought dismissal of petitions seeking review of the 14 December last year verdict which gave a clean chit to the government on procurement of 36 fighter jets from French firm Dassault, said CAG report "belied" the main arguments of petitioners regarding alleged "exor-

bitant price" of the jets. In its 39-page written submissions filed in the top court, the Centre has said that petitioners and former Union ministers Yashwant Sinha, Arun Shourie and activist advocate Prashant Bhushan have not made out any ground which would justify review of the "well reasoned" 14 Decem-

ber judgment last year. 'Especially, once this court had come to the conclusion that on all the three aspects i.e., the decision making process, pricing and Indian offset partner, there is no reason for intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 Rafale fighter aircrafts by the Indian Government, there is no question of

CBI," the government said. A three-judge bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi had on 10 May reserved its verdict on the pleas seeking review of the 14 December judgment in the Rafale case.

either registration of FIR much

less any investigation by the

The apex court, in its 14 December verdict, had said there was no occasion to doubt the decision-making process in the procurement of 36 Rafale jets and dismissed the petitions seeking an investigation into alleged irregularities in the Rs 58,000 crore deal. Besides Sinha, Shourie and Bhushan, review petitions have also been filed by AAP lawmaker Sanjay Singh and lawyer Vineet Dhandha.



In its written submissions, the Centre has said in the garb of seeking review of the verdict and placing reliance on "some press reports and some incomplete internal file noting(s), copies of which were obtained unauthorisedly and illegally", the petitioners cannot seek to reopen the whole matter since scope of review petition is

extremely limited. "The review petition, it is therefore, submitted is an attempt to get a fishing and roving enquiry ordered, which this court has specifically

declined to go into based on perceptions of individuals," it said.

The Centre also said the petitioners have not disclosed any new evidence in the review petition "except that they have now based their case on some unauthorisedly accessed documents copied from the secret files of the Ministry of Defence."It said files and documents were made available to the Comptroller and Auditor General (CAG) who took about two years to complete its study and finalise its report.

"The report of the CAG

does not support the main argument of petitioners which has been perpetually repeated before this court that the cost of each aircraft under 36 Rafale contract is Rs 1,000 crore higher than what it would have been under the MMRCA bid," the Centre said.

"The basic price of the aircraft has been informed to the Parliament as approximately Rs 670 crore at prevailing exchange rate of November, 2016; without associated equipments, weapons, India Specific Enhancements, maintenance support and services," it said. It also said for the overall aircraft package, "the CAG has held that the contract was concluded at a price which is 2.86 per cent lower than the audit aligned price.'

The government reiterated that it has no role in the selection of Indian offset partner which is a commercial decision of Original Equipment Manufacturer (OEM).

It said monitoring of progress in the government to government process by Prime Minister Office (PMO) cannot be construed as interference Despite LS poll loss, Cong happy to win Maoist-hit Bastar seat

RAIPUR, 26 MAY

Despite receiving a drubbing in the just-held Lok Sabha polls, the Chhattisgarh Congress has drawn consolation by wresting the Naxalhit Bastar seat, reserved for Scheduled Tribe candidates, which it never won in the past.

Congress nominee Dipak Baij defeated BJP's Baiduram Kashyap by a margin of 38,982 votes in Bastar.

Prior to the Lok Sabha elections, the Congress was hopeful of faring well and winning seats reserved for scheduled caste and scheduled tribe candidates as it won the Assembly polls last year with a thumping majority, uprooting the BJP which ruled the state for 15 years. However, in the Lok Sabha polls to 11 seats in the state, the results of which were declared last Thursday, the Congress managed to win only two seats -Korba and Bastar.

But, the party is happy to have improved its tally from the previous record of winning just one seat in the state in the last three Lok Sabha polls. "We performed well in Bastar and Kanker both reserved for tribal candidates. Though we won only Bastar of these two, the loss margin in Kanker was just 6,914 votes. Despite a strong 'Modi wave', the Congress has improved its tally in Chhattisgarh to two seats," state Congress spokesman Shailesh said Nitin Trivedi.

"It is significant that the party has won a reserved Lok Sabha seat for the first time since the formation of Chhattisgarh in November 2000. The credit goes to Congress' pro-tribal and profarmer measures taken in just two months of formation of its government in the state," he said.

Prior to polling in Bastar Lok Sabha seat, ultras last month killed BJP MLA Bhima Mandavi and four security personnel in the region, which has been struggling with Naxal menace for the past three decades.

Balakot attack was to ensure terrorists don't carry out action against India: Rawat

EZHIMALA, 26 MAY

Chief of Army Staff General Bipin Rawat has said the Balakot attack in February was to ensure that terrorists being trained across the border do not survive to carry out action against India.

Coordinated efforts are being made by various government agencies to tackle cross-border terrorism, he

said. "Through the coordinated efforts of various government agencies, now the NIA has stepped in, the Enforcement Directorate has stepped in and all are trying to ensure financing and funds available to terrorists are cut off," he said, responding to a ques-

PRESS TRUST OF INDIA tion on insurgency in Kash-brought the situation under mir at a media interaction here. He also said the situation

there has been brought under

control. Rawat said the country has been facing terrorism since Independence and that security forces and all agencies supporting them have met

these challenges head on. "We have been able to ensure that the insurgency has been brought under control. Of course in the Kashmir

Valley, we have been witnessing ups and downs of insurgencies. "That's because they got support from our western neighbour. At the same time many (people) are misguided due to a misinformation campaign spread by terrorists. But we have

control," he said.

The Chief of Army staff was interacting with the media here yesterday after reviewing the passing-out parade of 264 trainees, comprising midshipmen and cadets of the Indian Navy, Indian Coast Guard and 10 international cadets.

Asked about the radar comment of Prime Minister Narendra Modi, Rawat said some types of radar cannot see through clouds because of the manner in which it is operates. "There are various kinds of radars working with different technologies. Some have the capacity to see through, some don't have the capacity to see through,"he



BJP MP from East Delhi Gautam Gambhir during the inauguration of Play Station at Arya Nagar Apartment, IP Extension in the Capital on Sunday.

Congratulatory messages continue to pour in for Modi from world leaders

PRESS TRUST OF INDIA **NEW DELHI 26 MAY**

Prime Minister Narendra Modicontinues to receive congratulatory calls from leaders across the globe for returning to power with a massive majority in the Lok Sabha elections.

The prime minister received telephone calls from crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Emir of State of QatarSheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, German Chancellor Angela Merkel, British PM Theresa May and former Sri Lankan president Mahinda Rajapaksa.

A statement from the prime minister's office said all calls were received on Saturday.

Modi thanked the Crown Prince for his felicitations and conveyed his appreciation for his invaluable friendship with people of India and his personal interest in furthering close relations between the two

countries. The Emir felicitated the Prime Minister and noted the deepening relationship between India and

The prime minister thanked the Emir and expressed appreciation for his guidance in building strong partnership between the two countries, the statement

Congratulating Modi, Chancellor Merkel noted the growing relationship between the two countries and expressed her desire to further enhance cooperation in areas of mutual interests.

The Prime Minister thanked her and noted the exemplary role played by her in furthering bilateral ties between the two countries as well as for global peace and prosperity.

The two leaders look forward to interacting at the forthcoming G20 Summit in Osaka, Japan, and to the Inter Governmental Consultations between the two countries later this year in India.

Describing the Lok Sabha polls as a major showcase for democracy, Prime Minister May complimented the people of India on completion of the significant exercise.

Maldives to be Modi's first destination for bilateral visit

PRESS TRUST OF INDIA **NEW DELHI 26 MAY**

Prime Minister Narendra Modi is expected to travel to the Maldives early next month, in his first bilateral visit after retaining power in the Lok Sabha polls, according to diplomatic sources and Maldivian media reports.

Bhutan was the first country Modi had visited in 2014 after becoming Prime Minister. Diplomatic sources said the Prime Minister is expected to travel to Male in the first half of June, while the Maldivian media reported the visit will take place between 7 and 8 June.

External Affairs Minister Sushma Swaraj visited the Maldives in March, the first full-fledged bilateral trip from India to the island nation after the government of



President Ibrahim Mohamed Solih came to power in November last year. Modi visited the Maldives in November to attend Solih's swearing-in ceremony, signalling the importance India attaches to the island nation, where China has been trying to expand its influence. Last week, Solih congratulated Modi for his

"resounding electoral victory". The relations between India and the Maldives deteriorated after then President Abdulla Yameen imposed emergency on 5 February


last year.

Vadra bail cancellation: HC to hear ED plea today

PRESS TRUST OF INDIA

The ED's plea, filed on 24

The agency has sought quashing of the trial court's April 1 order by which Vadra, brother-in-law of Congress president Rahul Gandhi, was granted anticipatory bail, saying the special judge had failed to consider the settled position of law that bail should not be "granted in a routine manner".



evasive during the probe and may tamper with evidence.

The central agency has also challenged the anticipatory bail granted to Manoj Arora, an employee of Vadra's Skylight Hospitality LLP and a co-accused in the case.

In its plea, filed through ED prosecutor DP Singh, the agency has sought cancellation of the anticipatory bail granted to Vadra, saying the protection given to him ing ascertaining the exact source of the allegedly tainted money and the end use of the funds involved in the case.

Vadra is facing allegations of money laundering in the purchase of a London-based property, located at 12, Bryanston Square and worth 1.9 million pounds.

The ED has alleged that Arora, a close aide of Vadra, was aware of his undeclared overseas assets and was instrumental in arranging funds.

The separate pleas of Vadra and Arora seeking quashing of the case are also pending before the high court.

In its plea, the ED has contended that if Vadra is granted the blanket protection of bail, there is a likelihood that he may tamper with evidence and influence the witnesses in the case and that the trial court had failed to appreciate that he was a highly-influ-

Over 25 states face ₹1cr EC for no action plan on plastic waste disposal

PRESS TRUST OF INDIA **NEW DELHI, 26 MAY**

Over 25 state governments may have to pay environment compensation (EC) of Rs 1 crore each for not submitting their respective action plans on systematic disposal of plastic waste to the Central Pollution Control Board (CPCB) as the April 30 deadline set by the National Green Tribunal

has passed by. The states had to submit action plans by 30 April to the CPCB, failing which they would have to pay the pollution body a compensation at the rate of Rs one crore per month, as per the National Green Tribunal (NGT) order.

S K Nigam, former Additional Director of CPCB and the man who took the legal recourse against the erring states, said, "They (states) did not comply with our orders, so we moved the NGT. Now they are violating NGT price for it. The punishment not

just includes compensation but officials to carry out necessary imprisonment too, in some cases."

"The state of affairs is poor. Waste management is the last in the list of priorities of municipal corporations. The CPCB will now apprise the NGT about noncompliance and make the states pay heavy amount for the default," Nigam said. Explaining the cause of non-compliance by state governments, NGO Indian Pollution Control Association (IPCA) Chairman Ashish Jain said there was lack of knowledge among state authorities and a communication gap between state and central gov-

ernment officials. Lack of knowledge and updates among the state pollution control boards is the main reason for non-compliance of plastic waste management rules. There is a communication gap between the ministry of environment and state level officials responsible for

waste management compliance. "The ministry of environment orders, so they have to pay the needs to conduct awareness programmes to educate state-level

measures to segregate plastic and dispose it," he said. The NGT had earlier this year directed all states and Union territories except Andhra Pradesh, Sikkim, West Bengal and Puducherry to submit action plan for compliance of PWM Rules and furnish the same to the CPCB by April 30, 2019.

"It is made clear that any failure in this regard will result in defaulting states being required to pay compensation to be deposited with the CPCB at the rate of Rs one crore per month after May 1, 2019," the NGT order

Except Andhra Pradesh, Puducherry, Sikkim and West Bengal, the remaining states/UTs and SPCBs (state pollution control boards) have failed to submit the Action Plan for implementation of various provisions of Plastic Waste Management (PWM) Rules 2016, as amended, 2018 for setting-up of plastic waste management system for col-

lection, segregation and disposal of plastic waste in the cities, towns and villages and registration of plastic units, the NGT had noted.

"Due to this widespread littering, choking of drains, open burning of plastic waste, etc. has been continued," it had said. It was also noted that though 22 states Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Chhattisgarh, Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli, Delhi (subjudice), Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, UP and Uttarakhand have imposed complete ban on use of plastic carry bags but due to lack of proper regulation, thin carry bags and other plastic products are indiscriminately stocked, sold and used in majority of cities/towns across the country.

NEW DELHI 26 MAY

The Delhi High Court will on Monday hear the plea of the Enforcement Directorate (ED) seeking cancellation of the anticipatory bail granted to businessman Robert Vadra in a money-laundering case.

May, is listed for hearing before Justice Chander Shekhar.

The ED has also claimed that Vadra was non-cooperative and

would be detrimental to its probe on certain crucial aspects, includ-

ential person. JAY USHIN LIMITED Registered Office: GI-48, G.T. Karnal Road, Delhi- 110033,

Website: www.jpmgroup.co.in, Tel: 91(124)-4623400, Fax: +91(124)-4623403 Statement of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter

CIN: L52110DL1986PLC025118, E-mail: Info@jushinindia.com

and Year ended March 31, 2019 Standalone Consolidated **Particulars** 31.12.2018 31.03.2018 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2019 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited) Total Income from Operations 17,266.47 20,916.81 23,208.32 85,493.16 88,958.77 85,493.16 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items) 254.82 301.90 152.93 1,266.99 812.19 1,263.25 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 254.82 301.90 152.93 812.19 1,263.25 Exceptional and/or Extraordinary items) 1,266.99 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 214.29 228.66 294.18 1,154,24 1,067.84 1,150.50 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after 157.85 237.45 317.73 1,118.36 1,091.39 1,114.62 tax) and Other Comprehensive Income (after 386.45 386.45 386.45 386.45 386.45 386.45 Paid-up Equity Share Capital (Face Value per Share Rs. 10/-Each) Reserves (excluding revaluation reserves) as 6,113.65 7,088.47 shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings per equity share (EPS) 5.55 5.92 7.61 29.87 27.63 29.77 (of Rs. 10/- each) 5.92 29.87 27.63 29.77 a) Basic 5.55 7.61 Annualised b) Diluted Not annualised Not annualised Not annualised Annualised Annualised

NOTES:

1. The above unaudited results for the quarter ended March 31, 2019 and the audited results for the year ended March 31, 2019 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in it's meeting held on May 25, 2019. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on aforesaid results

The Board of Directors at their meeting considered and recommended a dividend aggregating Rs. 115.94 Lakhs i.e. Rs.3.00 per share (nominal value) Rs. 10.00 per share) (Previous Year Rs. 115.94 Lakhs i.e. Rs.3.00) for the financial year 2018-19.

3. The above is an extract of the detailed format of the Quarter and Year ended March 31, 2019 Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of Stock For and on behalf of Board of Directors Jay Ushin Limited

Place: Gurugram Dated: May 25, 2019

Exchange at www.bseindia.com and also on Company's website www.jpmgroup.co.in.

Managing Director DIN: 00049966

(Ashwani Minda)